

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 21.06.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अमर सिंह पुत्र रामबहादुर सिंह नि० मलौना थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं- 246/22 धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मनोज सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम सदियापुर बालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं- 193/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. कालूराम शुक्ला पुत्र रामरंग शुक्ला निवासी ग्राम उमरिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं- 120/22 धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन व पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के साथ किया योग-

आयोजित योग शिविर में जवानों ने मानसिक एवं शारीरिक रूप से फिट रहने हेतु विभिन्न प्रकार के योगासनों का किया अभ्यास –

आज दिनांक 21.06.2022 को 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन उपेन्द्र कुमार अग्रवाल व पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर रिजर्व पुलिस लाइन गोंडा के परेड ग्राउंड में आयोजित योग शिविर में पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के साथ योगासन किया गया। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित योग शिविर में उपस्थित जवानों ने मानसिक एवं शारीरिक रूप से फिट रहने हेतु विभिन्न प्रकार के योगासनों जैसे- पद्मासन, वज्रासन, मत्स्यासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन-, सुर्य नमस्कार, गोमुखासन, पश्चिमोत्तनासन, उष्ट्रासन, गोमुखासन, अर्धहलासन, हलासन, सर्वांगासन, पवनमुक्तासन, नौकासन, शवासन, मकरासन, धनुरासन, भुजंगासन, शलभासन, विपरीत नौकासन आदि योगों का अभ्यास कराया गया। इसी प्रकार जनपद के समस्त थानो पर भी 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया गया जिसमें थानो के समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण ने प्रतिभाग कर विभिन्न प्रकार के योगासनों का अभ्यास किया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा, समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रतिसार निरीक्षक, समस्त शाखा प्रभारी व अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 21.06.2022

थाना वजीरगंज ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षकथानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त महिनकू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. महिनकू पुत्र मो0 इन्द्रीश निवासी ग्राम चाँदपुर महोलिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-173/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 आशीष कुमार मय टीमा।